

बीमा उद्योग का पुनर्धार

यह एडिटरियल 19/03/2023 को 'द दृष्टि' में प्रकाशित "Modernising insurance fraud detection tools" लेख पर आधारित है। इसमें बीमा क्षेत्र से संबद्ध चुनौतियों और इनके समाधान के उपायों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

महामारी की प्रतिक्रिया में बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जहाँ व्यावसायिक व्यवधानों को कम करने के लिये एक त्वरित कार्यात्मक समायोजन की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी। बीमाकर्ताओं (Insurers) ने बिक्री, ग्राहक सेवा और दावा प्रबंधन के डिजिटलीकरण को बढ़ाकर तथा अपने कर्मियों को एक 'हाइब्रिड वर्कगि मॉडल' में कार्य-सक्षम बनाकर इस संकट का त्वरित जवाब दिया।

- भारत अगले दशक में दुनिया का छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बनने की राह पर है, जहाँ नॉमिनल लोकल करेंसी के संदर्भ में बीमा प्रीमियम प्रतिवर्ष 14% के औसत से बढ़ रहा है। हालाँकि, बीमा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

भारत में बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23** के अनुसार भारत का बीमा बाजार आने वाले दशक में वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से विकास करते बाजारों में से एक के रूप में उभरने के लिये तैयार है।
- **बीमा नियामक निकाय IRDAI** के अनुसार, भारत में बीमा प्रवेश या पैठ (insurance penetration) की दर वर्ष 2019-20 में 3.76% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 4.20% तक पहुँच गई जो 11.70% की वृद्धि गति करती है।
 - इसके साथ ही, बीमा घनत्व (Insurance Density) वर्ष 2020-21 में 78 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया।
- वर्ष 2021 में जीवन बीमा प्रवेश 3.2% दर्ज किया गया, जो अन्य उभरते बाजारों से लगभग दोगुना और वैश्विक औसत से कुछ अधिक था।

भारत में बीमा क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **कम प्रवेश या पैठ:**
 - अन्य देशों की तुलना में भारत में बीमा प्रवेश दर (Insurance Penetration Rate) नमिन है। यह बीमा के प्रतिक्रम जागरूकता और उसके प्रतिलोगों में भरोसे की कमी के कारण है।
 - भारत की लगभग 65% आबादी (90 करोड़ से अधिक) देश के ग्रामीण भागों में निवास करती है। लेकिन ग्रामीण भारत के केवल 8-10% को ही जीवन बीमा कवरेज प्राप्त है।
 - भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, भारतीय बीमा उद्योग की पैठ सकल घरेलू उत्पाद के 5% से भी कम है। पैठ के मामले में भारत वैश्विक औसत (सकल घरेलू उत्पाद के 7%) से बहुत पीछे है।
- **उत्पाद नवाचार की कमी:**
 - भारत में बीमा क्षेत्र उत्पाद नवाचार (Product Innovation) में सुस्त रहा है। कई बीमा कंपनियाँ लगभग एक जैसे उत्पादों की पेशकश करती हैं, जिससे बाजार में विविधता की कमी की स्थिति बनती है।
- **धोखाधड़ी:**
 - भारत में बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी (fraud) एक बड़ी चुनौती है। बीमा धोखाधड़ी में झूठे दावे, गलत बयानी और अन्य अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं।
 - धोखाधड़ी प्रायः संगठन की प्रणालियों और नियंत्रण में व्याप्त कमजोरियों से सुगम बनती है जहाँ धोखाधड़ी करने की मंशा रखने वालों के लिये अवसर उत्पन्न होते हैं।
 - इसके अलावा, संभवतः डिजिटलीकरण और ग्राहक-केंद्रित नीतियों ने अनजाने में ही धोखेबाजों को पहचान की चोरी, गलत बयानी और धोखाधड़ीपूर्ण दावों के लिये अवसर प्रदान कर दिया है।
 - 70% से अधिक भारतीय बीमाकर्ताओं ने पिछले दो वर्षों में धोखाधड़ी के मामलों में मामूली वृद्धि से लेकर उल्लेखनीय वृद्धि तक का

संकेत दिया है।

■ प्रतर्भा प्रबंधन:

- भारत में बीमा क्षेत्र प्रतर्भा की कमी का सामना कर रहा है। उद्योग को बीमा वजिज्ञान (Actuarial Science), अंडररायटिंग (Underwriting), दावे (Claims) और जोखमि प्रबंधन (Risk Management) जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की आवश्यकता है।
- प्रतर्भाशाली पेशेवरों को आकर्षति करना और उन्हें बनाए रखना उद्योग के लिये एक चुनौती है।

■ डजिटिलीकरण की धीमी दर:

- भारत में बीमा क्षेत्र अन्य उद्योगों की तुलना में डजिटिलीकरण को अपनाने में पर्याप्त सुस्त रहा है, जसके परणामस्वरूप अक्षम प्रकरया, पारदर्शति की कमी और खराब ग्राहक अनुभव जैसी कई चुनौतियाँ उभरी हैं।

■ स्वचालन का अभाव:

- भारत में कई बीमा कंपनयाँ अभी भी अंडररायटिंग, पॉलिसी सर्वसिगि एवं दावा प्रबंधन जैसे कार्यों के लिये मैन्युअल प्रकरयाओं पर नरिभर हैं, जो समय लेने वाली और त्रुटि-प्रवण हो सकती हैं।
- इससे देरी, उच्च लागत और असंतुष्ट ग्राहक जैसे परणाम प्राप्त हो सकते हैं।

■ दावा प्रबंधन:

- भारत में दावों की प्रकरया को प्रायः जटलि, धीमी और अपारदर्शी माना जाता है, जससे ग्राहक असंतुष्ट और बीमा उद्योग में उनके भरोसे की कमी जैसे परणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- पारदर्शति की कमी, अक्षम प्रकरयाएँ और ग्राहकों के साथ उपयुक्त तरीके से संवाद की कमी इसके संभावति कारण हैं।

आगे की राह

■ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:

- लागत को कम करने, दक्षता में सुधार करने तथा पारसिथितिकी तंत्र के वकिस का समर्थन करने के लिये समग्र मूल्य शृंखला में डजिटिलीकरण को प्राथमकितता से लक्ष्य बनाया जाना चाहिये।
- उच्च कर्मचारी दक्षता के सृजन और उसे बनाए रखने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता है। इस क्रम में अपस्कलिगि कार्यक्रम शुरु किये जा सकते हैं जो सॉफ्ट, तकनीकी और डजिटिल कौशल का एक मशिरण वकिसति करें।

■ ग्राहक व्यवहार में गतशील परिवर्तन के साथ तालमेल बढाना:

- बीमा क्षेत्र के अभकिरताओं को ग्राहक व्यवहार एवं पसंद में गतशील परिवर्तनों के साथ संरेखति होने और प्रत्ययी ज़मिमेदारी (जैसे त्वरति वकतगित उत्पादों की पेशकश करना जिन्हें ग्राहकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिये सामूहिक उत्पाद पेशकशों से अधिक प्राथमकितता दी जा सकती है) के प्रदर्शन के साथ धारणाओं को प्रबंधति करने की आवश्यकता होगी।

■ 'डेटा एंड एनालटिकस' के उपयोग को इष्टतम करना:

- अधिकितम दक्षता के लिये कार्यकरणों में डेटा एंड एनालटिकस (Data & Analytics) के उपयोग को इष्टतम करने की तत्काल आवश्यकता है।

■ दावा प्रबंधन का सरलीकरण:

- बीमाकर्ता और बीमाधारक के लिये दावा प्रबंधन प्रकरया को सरल बनाने की आवश्यकता है। स्केल (Scale) के प्रबंधन और भागीदारों के अगले समूह तक पहुँच प्राप्त करने के लिये रणनीतिक भागीदारी (Strategic partnerships) पर वचिर किये जा सकता है।

■ हाइब्रडि वतिरण मॉडल अपनाना:

- वतिरण के प्रती एक ऐसा नया दृष्टिकोण आवश्यक है, जो प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता हो और उच्च क्षमता संपन्न बाज़ारों को प्राथमकितता देता हो। इसके लिये ग्रामीण बाज़ारों को सेवा देने पर वशिष बल के साथ मानव वशिषज्जता और प्रौद्योगिकी को संयोजति करने वाले हाइब्रडि वतिरण मॉडल को नयिोजति किये जा सकता है।

■ धोखाधड़ी से नपिटना:

- एक प्रभावी, व्यापार संचालति धोखाधड़ी जोखमि प्रबंधन (FRM) दृष्टिकोण के प्रमुख उद्देश्यों में ऐसे नयितरण शामिल होने चाहिये जो धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकें, धोखाधड़ी का पता लगाएँ और परणामों को सीमति करने के लिये एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान करें।
- प्रभावी डेटा प्रबंधन धोखाधड़ी का मुकाबला करने का एक प्रभावी उपाय है।
 - बीमाकर्ताओं के लिये पहला कदम यह होगा कि प्रासंगिक डेटा स्रोतों की पहचान कर और उन्हें एक साझा प्लेटफॉर्म या 'डेटा लेक' (data lake)— जहाँ सटीक, पूर्ण और उपयुक्त सूचना संग्रहीत की जाती है, पर एकीकृत कर अपने डेटा को प्रभावी रूप से व्यवस्थति करें।

अभ्यास प्रश्न: भारत में बीमा क्षेत्र के समक्ष वदियमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं और इन्हें कसि प्रकार संबोधति किये जा सकता है?